

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 348]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 नवम्बर 2023—अग्रहायण 1, शक 1945

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर, 2023 (अग्रहायण 1, 1945)

विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

क्र. 17923-म.प्र.वि.स.-15-विधान-2023.—मध्यप्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 65-मैहर से निर्वाचित सदस्य श्री नारायण त्रिपाठी एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 182-बड़वाह से निर्वाचित सदस्य श्री सचिन बिरला द्वारा विधान सभा के अपने स्थानों से दिये गये त्याग-पत्र को माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश विधान सभा में उक्त दो स्थान रिक्त हो गये हैं.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.